

## परिशिष्ट C – निवारक उपाय

मतदाताओं के रजिस्ट्रार (ROV) ने चुनाव प्रक्रिया में आने वाली संभावित रुकावटों से बचने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय स्थापित किये हैं:

### मानक सुरक्षा उपाय

चुनाव से संबंधित सामग्री और उपकरणों तक पहुंच को सीमित रखना और अंततः किसी भी संभावित रुकावट को रोकना:

- कर्मचारियों का काउंटी या विभाग द्वारा जारी किए गए आईडी बैज पहनना ज़रूरी है।
- आगंतुक या गैर-कर्मचारी, जो फ्रंट डेस्क से परे विभाग के कार्यालयों में प्रवेश करते हैं, उनके साथ उस कर्मचारी का होना ज़रूरी है जिन्हें आगंतुक मिलने के लिए आया/आई है।
- विभाग के कंप्यूटर सर्वर कक्ष और मतपत्र कक्ष हमेशा सीमित बैज द्वारा प्रवेश करने और वीडियो निगरानी द्वारा संरक्षित किए जाते हैं।

### सर्वर और नेटवर्क बैकअप

जानकारी के प्रवाह में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए, यदि मुख्य सर्वर या नेटवर्क डाउन हो जाए:

- विभाग की मतदान प्रणाली, मतपत्र लेआउट और डिजाइन, और चुनाव प्रबंधन प्रणाली (EMS) गतिविधि काउंटी के सुरक्षित डेटा केंद्र पर स्थित होगी।
- इस डेटा के लिए बैकअप स्वचालित रूप से होता है और यदि किसी कारण से मुख्य सर्वर डाउन हो जाता है, तो परिणियोजन के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।
- मतदाता डेटा, मतदान प्रणाली, और EMS में किये गये बदलावों का नियमित समय पर बैकअप लिया जाता है।

### मतदान केंद्र उपकरण का बैकअप सेट

मतदान प्रक्रिया में किसी रुकावट को रोकने के लिए, यदि कोई उपकरण इस्तेमाल करने लायक न रहे:

- यदि कोई मतदान केंद्र ऐसी समस्या का सामना करता है जिसमें मौजूदा उपकरण इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, तो विभाग के पास अतिरिक्त उपकरण मौजूद होता है ताकि वह मतदान स्थल मतदाताओं को संसाधित करना जारी रख सके।
- यदि कोई अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो मतदान केंद्र में मैनुअल प्रक्रिया के तहत काम करने की क्षमता है।

### गायब उपकरण

मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट आने को रोकने के लिए, यदि कोई उपकरण गायब हो जाए:

- यदि किसी मतदान केंद्र से उपकरण गायब हो जाता है, तो मतदान केंद्र का नेतृत्व करने वाला/ली मुख्य ROV कार्यालय को सूचित करेगा/गी।
- बैकअप चुनाव उपकरणों को स्टोर करने वाले एक मोबाइल आपूर्ति ट्रक को गोदाम के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- गोदाम स्टाफ के कम से कम दो सदस्य मतदान केंद्र पर आपूर्ति ट्रक से किसी भी आपूर्ति और उपकरण तैनात करेंगे ताकि वहाँ आपूर्ति और उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

### मतदान के लिए बैकअप आपूर्तियां

मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट आने को रोकने के लिए, यदि कोई मतदान आपूर्तियां इस्तेमाल करने लायक न रहें या गायब हो जाए:

- मतदान केंद्र कर्मचारियों के लिए तैयार कंटेनरों का डुप्लिकेट बनाए रखा जाएगा।
- मतदान केन्द्र समन्वयक मतदान के लिए बैकअप आपूर्तियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- ऐसी स्थिति में जब किसी साइट को स्थानांतरित किया जाना ज़रूरी हो जाता है, और कर्मी अपनी वर्तमान आपूर्तियों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हैं, तो जब संभव हो, बैकअप आपूर्तियों को नई साइट पर डिलीवर किया जाएगा।

### मतदान केंद्र के अनुपस्थित कर्मचारी

मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए, यदि मतदान केंद्र के कर्मचारी अपनी निर्दिष्ट शिफ्ट पर रिपोर्ट नहीं करते:

- मतदान केन्द्र नेतृत्व मतदान केन्द्र के लिए प्रतिस्थापन कर्मचारी प्राप्त करने के लिए ROV कार्यालय से संपर्क करेगा।
- प्रशिक्षित बैकअप कर्मचारियों की एक सूची मुख्य ROV कार्यालय द्वारा बनाकर रखी जाएगी।

### संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु

मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे:

- मतदान केन्द्र नेतृत्व स्थिति के आधार पर सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क करेगा।

### मैनुअल सिस्टम स्थापित करना

मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपकरण इस्तेमाल योग्य न रह जाए:

- सभी कार्यों को मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।